

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ने चिंगकूज़ी वेलनेस सेंटर में कैनेडा और ओनटैरियो के निवेश सुरक्षित किए

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 फरवरी, 2021) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown); मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) की ओर से, ब्रैम्पटन नॉर्थ के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, रूबी सहोता (Ruby Sahota); ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, मनिंदर सिद्धु (Maninder Sidhu); ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लॉरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से, एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड रेड टेप रिडक्शन और ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, माननीय प्रबमीत सरकारिया (Prabmeet Sarkaria); और ब्रैम्पटन वेस्ट के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, अमरजोत संधु (Amarjot Sandhu) ने, चिंगकूज़ी वेलनेस सेंटर (Chinguacousy Wellness Centre) के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग की घोषणा की।

कैनेडा सरकार, *इन्वेस्टिंग इन कैनेडा (Investing in Canada)* प्लान की कम्युनिटी, कल्चर एंड रेक्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीम (सी.सी.आर.आई.एस.) (Community, Culture and Recreation Infrastructure Stream) (CCRIS) के द्वारा, इस प्रोजेक्ट में 572,000 डालर का निवेश कर रही है। ओनटैरियो सरकार, 476,619 डालर प्रदान कर रही है, जबकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 381,381 डालर का योगदान दे रही है।

इस प्रोजेक्ट में, सुलभता और यूजर अनुभव में सुधार करने के लिए, रेक्रिएशन सेंटर का अंदरूनी और बाहरी पुनर्निर्माण शामिल है। अंदरूनी सुधारों में शामिल हैं, नए वॉशरूम, कपड़े बदलने वाले कमरे, सौना (वाष्प स्नान), लॉकर सहूलियतें और शावर फेसिलिटीज। हॉट टब एरिया में दुबारा टाइलें लगाने सहित, सभी क्षेत्रों में फर्शों का अपग्रेड किया निकास-प्रबंध भी, फेसिलिटी की सुरक्षा में वृद्धि करेगा।

बिल्डिंग के बाहरी ओर, पगडंडियों और कैच बेसिन्स की मरम्मत से, उत्तरी दिशा में निकास-प्रबंध में सुधार होगा। अपग्रेड की गई पार्किंग लॉट लाइटिंग में अधिक रोशनी वाले और अधिक ऊर्जा-क्षमता वाले फिक्सचर शामिल होंगे। चिंगकूज़ी वेलनेस सेंटर में यह सुधार, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के [पार्क्स एंड रेक्रिएशन मास्टर प्लान \(Parks and Recreation Master Plan\)](#) का हिस्सा है, जो ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन सेंटर्स के लिए नवीकरण योजना है।

कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए, प्रांत के बंद रहने के कारण, चिंगकूज़ी वेलनेस सेंटर बंद रहेगा। पुनर्निर्माण, वसंत 2021 में शुरू होने की संभावना है।

लिंक

- [ब्रैम्पटन में रेक्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए कैनेडा एंड ओनटैरियो का निवेश \(Canada and Ontario invest to improve recreation infrastructure in Brampton\)](#)
- [पार्क्स एंड रेक्रिएशन मास्टर प्लान \(Parks and Recreation Master Plan\)](#)

हवाले

“हमें, ब्रैम्पटन के चिंगकूजी वेलनेस सेंटर में कैनेडा सरकार और ओनटैरियो सरकार से इन बड़े निवेशों का स्वागत करने पर गर्व है। ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है और हम यह सुनिश्चित रखना जारी रखेंगे कि चिंगकूजी वेलनेस सेंटर और हमारे सभी रेक्रिएशन सेंटर निवासियों को, स्वस्थ और क्रियाशील रहने के लिए और आनंद लेने के लिए, सुलभ और सुरक्षित अनुभव प्रदान करते हैं।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन सेंटर, हमारे समुदाय का केंद्र हैं। पाक्स एंड रेक्रिएशन मास्टर प्लान के हिस्से के तौर पर, चिंगकूजी वेलनेस सेंटर में सुधारों की सहायता के लिए, फेडरल और प्रोविंसियल सरकारों का धन्यवाद। चिंगकूजी वेलनेस सेंटर में सुधार, ब्रैम्पटन में रेक्रिएशन में वृद्धि करेंगे और सभी ब्रैम्पटन निवासियों के लिए क्रियाशील जीवनशैली को प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“चिंगकूजी वेलनेस सेंटर में अंदरूनी और बाहरी सुधार, फैसिलिटी की सुलभता, सुरक्षा और संपूर्ण यूजर अनुभव के लिए जरूरी हैं। हम, पुनर्निर्माण के इन कामों को शुरू करने के लिए उत्साहित हैं और ब्रैम्पटन में भविष्योन्मुखी प्रोजेक्टों में सरकार के सभी महकमों का सहयोग जारी रहने की उम्मीद करते हैं।”

- *शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे समुदाय के लिए जरूरी सहायता प्रदान करने हेतु, सरकार के सभी महकमों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। चिंगकूजी वेलनेस सेंटर के निवेश, हमारे समुदाय में रेक्रिएशन फैसिलिटीज के पुनर्निर्माण के लिए और ब्रैम्पटन के निवासियों को शानदार रेक्रिएशन अवसर प्रदान करने के लिए, पाक्स एंड रेक्रिएशन मास्टर प्लान की कार्यनीति संबंधी दृष्टिकोण के मुताबिक हैं।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सामुदायिक रेक्रिएशन सेंटर्स में निवेश करना, लोगों के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती में वृद्धि करता है और भागीदारी वाले व स्थिर समुदाय बनाता है, जहां लोग रहना चाहते हैं, काम करते हैं और परिवारों की परवरिश करते हैं। चिंगकूजी वेलनेस सेंटर का पुनर्निर्माण, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए रेक्रिएशन संबंधी अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। कैनेडा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, हज़ारों प्रोजेक्टों में निवेश करता है, देश में नौकरियां पैदा करता है और अधिक साफ-सुथरे, अधिक भागीदारी वाले समुदाय बनाता है।”

- *रूबी सहोता (Ruby Sahota), ब्रैम्पटन नॉर्थ के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) की ओर से*

“समुदाय, संस्कृति और रेक्रिएशन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, ऐसे समुदाय बनाने के लिए जरूरी है, जो भागीदारी वाले और स्थिर हों। चिंगकूजी वेलनेस सेंटर में सुधारों के साथ फैसिलिटी लंबे समय तक कायम रहेगी। यह निवेश सुनिश्चित करेगा कि आने वाले वर्षों में आगंतुक, प्रोग्रामों और गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।”

- *मनिंदर सिद्धु (Maninder Sidhu), ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट*

“आज, ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन में निवेश करना यह सुनिश्चित करेगा कि हम आने वाले कल को, उस शहर में आनंद लेना जारी रखेंगे, जिस शहर को हम प्यार करते हैं। हमारी फैसिलिटीज में सुधार करके और परिवारों को क्रियाशील रहने में मदद करके, हम हमारे समुदाय को इस मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए, स्वस्थ और आनंददायक तरीके प्रदान कर रहे हैं।”

- *माननीय प्रबमीत सरकारिया (Prabmeet Sarkaria), एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड रेड टेप रिडक्शन और ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लॉरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से*

"मुझे, चिंगकूजी वेलनेस सेंटर पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट की मंजूरी की घोषणा होने पर बेहद खुशी है। हमारे शानदार शहर में यह निवेश, ब्रैम्पटन निवासियों और उनके परिवारों के लिए, स्वस्थ और क्रियाशील जीवनशैली के और अवसर प्रदान करेगा।”

- *अमरजोत संधु (Amarjot Sandhu), ब्रैम्पटन वेस्ट के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

क्रिस्टीन बुजोल्ड (Christine Bujold)

प्रेस सेक्रेटरी

ऑफिस ऑफ माननीय लॉरी स्कॉट, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर

416-454-1782 | christine.bujold@ontario.ca

सोफिया सूजा-डियास (Sofia Sousa-Dias)

कम्युनिकेशन्स ब्रांच

ओनटैरियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर

437-991-3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca

मीडिया रिलेशन्स

इंफ्रास्ट्रक्चर कैनेडा

613-960-9251

टोल फ्री: 1-877-250-7154

ईमेल: infc.media.infc@canada.ca

हमें [Twitter](#), [Facebook](#) और [Instagram](#) पर फॉलो करें

वेबसाइट: [Infrastructure Canada](#)